



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 अग्रहायण 1946 (श10)
(सं0 पटना 1118) पटना, मंगलवार, 26 नवम्बर 2024

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

18 नवम्बर 2024

सं० 2/एम-47/2024-1606(2)/स्वा०—विज्ञापन संख्या-2/2009 के विरुद्ध बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-1040(2), दिनांक-16.09.2011 द्वारा अन्य अभ्यर्थियों सहित डा० अल्का कुमारी को विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (स्त्री रोग) के पद पर औपबंधिक रुप (तदर्थ रुप) से छः माह के लिए नियुक्त किया गया था। डा० कुमारी का ससमय पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन अप्राप्त रहने के कारण उनकी सेवा नियमित नहीं हो सका था।

2. डा० अल्का कुमारी का पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन सम्प्रति प्राप्त हो चुका है। अतः डा० अल्का कुमारी, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (स्त्री रोग), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, महनार, वैशाली की औपबंधिक रुप (तदर्थ रुप) से की गई नियुक्ति को उनके प्रथम योगदान की तिथि 13.10.2011 के प्रभाव से नियमित किया जाता है।

3. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। ?

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विद्यानन्द जमादार,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1118-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>